



नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
National Insurance Company Limited



ऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ

ऐँऐँऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ ऐँ ऐँ ऐँ ऐँऐँऐँ  
+v^ऐँ ऐँ ऐँऐँऐँऐँ  
ऐँऐँऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँऐँ  
^ऐँऐँ ऐँ ऐँऐँ ऐँ ऐँ ऐँ +xऐँऐँऐँऐँ - I  
ऐँऐँऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ ऐँ ऐँऐँऐँ]ö+xऐँऐँऐँऐँ - II  
^ऐँऐँ +ऐँऐँऐँ ऐँऐँ ऐँ ऐँऐँ +xऐँऐँऐँऐँ - III  
ऐँऐँऐँऐँ +ऐँऐँ ऐँऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ  
ऐँऐँ ऐँ ऐँऐँऐँ ऐँ ^ऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ ऐँ]Q(ऐँऐँ)  
ऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ  
+^ऐँ +ऐँ +ऐँऐँ  
ऐँ ऐँ +ऐँ +ऐँ  
ऐँ ऐँऐँ +ऐँ +ऐँ  
+ऐँऐँ ऐँ ^ऐँऐँ +ऐँऐँ  
ऐँऐँऐँ ऐँऐँ  
xऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ ऐँ ऐँऐँ  
ऐँऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ  
ऐँऐँऐँ ऐँऐँऐँ ऐँ +^ऐँऐँ +xऐँऐँऐँऐँ  
^ऐँऐँ ऐँऐँऐँ +ऐँऐँऐँ xऐँऐँऐँऐँ  
ऐँऐँऐँऐँ ऐँ ^ऐँऐँ +^ऐँ ऐँऐँ ऐँ(ऐँऐँ)  
ऐँ ऐँऐँऐँ ऐँऐँ ऐँऐँ ऐँऐँ ऐँऐँ

Contents

8	Notice of Ninetyninth Annual General Meeting	9
10	Chairman's communiqué	11
16	Directors' Report	17
50	Board & Committee Meetings - Annexure I	50
51	Addendum to Directors' Report - Annexure II	52
53	Personal Line Insurance details - Annexure III	53
57	Statutory Auditors' Report	58
61	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	62
65	Management Report	66
69	Fire Revenue Account	69
71	Marine Revenue Account	71
73	Miscellaneous Revenue Account	73
75	Profit and Loss Account	75
77	Balance Sheet	77
79	Cash Flow Statement	79
82	Segmental Report	82
87	Schedules forming part of Financial Statements	87
106	Significant Accounting Policies	106
131	Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile	131























---

Corporate Management


a trusted shelter for 100 years



Deputy General Managers at Head office



## REGIONAL INCHARGES



**Patna Region**  
श्री B. B. Chura, CRM, Patna Region  
Shri S. M. Chura, CRM, Patna Region

**Kolkata Region - I**  
श्री B. B. Gaur, DGM, Kolkata Region - I  
Shri S. B. L. Gaur, DGM, Kolkata Region - I

**Guwahati Region**  
श्री D. R. Sarkar, CRM, Guwahati Region  
Shri D. R. Sarkar, CRM, Guwahati Region

**Kolkata Region - II**  
श्री M. L. Saha, CRM, Kolkata Region - II  
Shri M. L. Saha, CRM, Kolkata Region - II

**Bhubaneswar Region**  
श्री P. Nayak, CRM, Bhubaneswar Region  
Shri P. Nayak, CRM, Bhubaneswar Region

**Chandigarh Region - I**  
श्री S. B. Singh, CRM, Chandigarh Region - I  
Shri S. B. Singh, CRM, Chandigarh Region - I

**Chandigarh Region - II**  
श्री K. Singh, CRM, Chandigarh Region - II  
Shri K. Singh, CRM, Chandigarh Region - II

**Delhi Region - I**  
श्री H. K. Sharma, DGM, Delhi Region - I  
Dr. H. K. Sharma, DGM, Delhi Region - I

**Delhi Region - II**  
श्री N. Tobdan, DGM, Delhi Region - II  
Shri N. Tobdan, DGM, Delhi Region - II

**Jaipur Region**  
श्री Devi Singh, DGM, Jaipur Region  
Shri Devi Singh, DGM, Jaipur Region

**Lucknow Region**  
श्री R. V. Tyagi, DGM, Lucknow Region  
Shri R. V. Tyagi, DGM, Lucknow Region

**Dehradun Region**  
श्री V. K. Chhabra, CRM, Dehradun Region  
Shri V. K. Chhabra, CRM, Dehradun Region

## REGIONAL INCHARGES



**Hyderabad Region**  
श्री S. Rajpal, DGM, Hyderabad Region  
Shri S. Rajpal, DGM, Hyderabad Region

**Bangalore Region**  
श्री S. Aswathanarayana, CRM, Bangalore Region  
Shri Aswathanarayana, CRM, Bangalore Region

**Chennai Region**  
श्री S. Kalayanasundaram, DGM, Chennai Region  
Shri S. Kalayanasundaram, DGM, Chennai Region

**Kochi Region**  
श्री S. Ramabhadran, CRM, Kochi Region  
Shri S. Ramabhadran, CRM, Kochi Region

**Coimbatore Region**  
श्री S. Sethuraman, CRM, Coimbatore Region  
Shri S. Sethuraman, CRM, Coimbatore Region

**Ahmedabad Region**  
श्री K. K. Thakkar, CRM Joint Incharge, Ahmedabad Region  
Shri K. K. Thakkar, CRM Joint Incharge, Ahmedabad Region

**Ahmedabad Region**  
श्री S. M. Deshpandey, CRM Joint Incharge, Ahmedabad Region  
Shri S. M. Deshpandey, CRM Joint Incharge, Ahmedabad Region

**Baroda Region**  
श्री A. Sinha, CRM, Baroda Region  
Shri A. Sinha, CRM, Baroda Region

**Indore Region**  
श्री S. Tigga, CRM, Indore Region  
Shri S. Tigga, CRM, Indore Region

**Mumbai Region - I**  
श्री N. C. Ray, DGM, Mumbai Region - I  
Shri N. C. Ray, DGM, Mumbai Region - I

**Mumbai Region - II**  
श्री S. Chatterjee, CRM, Mumbai Region - II  
Shri S. Chatterjee, CRM, Mumbai Region - II

**Pune Region**  
श्री P. G. Godse, CRM, Pune Region  
Shri P. G. Godse, CRM, Pune Region

**Nagpur Region**  
श्री Vedprakash, CRM, Nagpur Region  
Shri Vedprakash, CRM, Nagpur Region



## सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की निम्नानुबद्धी वार्षिक साधारण बैठक सोमवार 25 सितम्बर 2006 को अपराह्न 12.30 बजे से 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता - 700 071 में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आयोजित होगी ।

- 31 मार्च 2006 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ और हानि लेखा और उस तारीख को निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित तुलन-पत्र को प्राप्त करना और उसे पारित करना ।
- वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना ।  
निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित हो तो संशोधन करके या बिना संशोधन पारित करना :  
"संकल्प किया कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए भारत में कम्पनी के प्रधान कार्यालय के सांविधिक लेखा परीक्षकों और क्षेत्रीय/मंडलीय कार्यालयों के शाखा लेखा परीक्षकों और विदेशी शाखाओं के लेखा परीक्षकों को देय कुल पारिश्रमिक वर्ष 2005-06 के कम्पनी की ग्लोबल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय के 0.05% तक की राशि के रूप में एतद्द्वारा निर्धारित की जाए तथा की जाती है तथा उक्त कुल सीमा के अन्दर उपर्युक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक को देय खर्च की प्रतिपूर्ति सहित वास्तविक लेखा परीक्षा फीस निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा कम्पनी का निदेशक मंडल प्राधिकृत किया जाए और जाता है बशर्ते मंडल की लेखा परीक्षा समिति की सम्मति हो ।"
- अन्य कोई प्रयोजन जिस पर वार्षिक साधारण बैठक में उचित रूप से कार्यवाई की जा सकती है ।

### निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते नेशनल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

14 सितम्बर 2006  
कोलकाता

आर भारती  
कम्पनी सचिव

- टिप्पणी :
- 1) बैठक में शामिल होने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह सदस्य हों या नहीं, अपने स्थान पर बैठक में शामिल होने और वहां मतदान करने के लिए अपना प्राक्सी नियुक्त करने के पात्र हैं ।
  - 2) प्राक्सी या अन्य प्राधिकारी, यदि हों, को नियुक्त करने संबंधी दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आयोजित होने के समय से 48 घंटे पूर्व जमा किए जा सकते हैं ।

## NOTICE

Notice is hereby given that the Ninetyninth Annual General Meeting of the Members of National Insurance Company Limited will be held at 3, Middleton Street, Kolkata-700 071 on Monday, the 25<sup>th</sup> day of September 2006 at 12.30 p.m. to transact the following business.

- To receive and adopt the Profit and Loss Account for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2006 and the Balance Sheet as at that date together with the Report of Directors and Auditors thereon.
- To fix the remuneration of the Auditors for the financial year 2006-07  
To consider and, if thought fit, to pass the undernoted Resolution with or without modification(s) :  
"Resolved that the total remuneration payable to Statutory Auditors of the Head Office and Branch Auditors for Regional/Divisional Offices in India and Auditors of Foreign Branches of the Company for the financial year 2006-07, to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India, be and is hereby fixed at an amount not exceeding 0.05% of Global Gross Direct Premium Income of the Company for the year 2005-06 and the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to determine the actual audit fees including Tax Audit Fees and reimbursement of out-of-pocket expenses payable to each of aforesaid auditor(s) within the overall limit mentioned above subject to concurrence of Audit Committee of the Board."
- To transact any other business which may properly be transacted at an Annual General Meeting.

By Order of the Board  
For National Insurance Company Limited

14<sup>th</sup> September 2006  
Kolkata

R. Bharathi  
Company Secretary

- Note :
- 1) A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint another person, whether a Member or not, as his proxy to attend the Meeting and vote thereat instead of himself.
  - 2) The instrument appointing a proxy or other authority, if any, can be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Meeting.



**सोमवार 25 सितम्बर 2006, को 3, मिडिलटन स्ट्रीट कोलकाता- 700 071 में आयोजित कम्पनी की 99वीं वार्षिक साधारण बैठक में नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिये अध्यक्ष का अभिभाषण**


आपकी कम्पनी की 99वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 31 अक्टूबर 2005 को कार्य-भार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर मैक्रो आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में 2005-06 के दौरान कंपनी के कार्य-निष्पादन के बारे में मैंने सिंहावलोकन किया।

भारत में वर्ष 2005-06 इस मामले में विशिष्ट रहा कि सकल घरेलू उत्पाद में 8.4% की उल्लेखनीय वृद्धि और कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन हुआ। प्रतिभूति बाजार में भी काफी उछाल आया और 31 मार्च 2006 को मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज 11280 तक ऊपर

ज्यादा रु.4685.95 करोड़ का अतिशेष दर्ज किया गया। इसमें निवेश से आय रु.1009.75 करोड़ है जिसमें निवेशों की बिक्री से रु.528.03 करोड़ का लाभ शामिल है।

वर्ष 2005 को सभी क्षेत्रों में भयंकर विनाशकारी गिना जा सकता है। हमें कैटरिना और विलमा को नहीं भूलना है जिसके कारण पूरे विश्व में लाखों-करोड़ों लोगों का जीवन और सम्पत्ति नष्ट हुई जिसके कारण बीमा दरों को बढ़ाना पड़ा। अब यह सोचा जा रहा है कि सौ वर्ष में एक बार होनेवाली घटना को 25 वर्ष में एक बार होनेवाली घटना के रूप में वर्गीकृत करना अधिक विवेकपूर्ण होगा।

**वित्तीय 2005-06 & 2004-05**



उठा। बाजार के उतार-चढ़ाव ने 2006-07 में दूसरी तिमाही के उत्तरार्द्ध में निवेशकों के विश्वास को हिलाकर रख दिया किन्तु बाद में बाजार के समरूप रहने और लगातार वृद्धि करने से इसमें स्थिरता आई।

मुझे यह कहते हुये खुशी है कि आपकी कंपनी ने बाजार के चढ़ाव का पूरा लाभ उठाया और हमारे निवेश विभाग में अब तक का सबसे

साथ-साथ व्यवसाय का बीमा और पुनर्बीमा करते समय अभूतपूर्व विनाश लीला की श्रृंखलाओं ने विवेकपूर्ण बीमालेखन की भद्र धारणा पर सोचने को बाध्य किया है। इसलिए हमारे विचार से सक्रिय जोखिम चिन्तन तथा जोखिम और तबाही प्रबन्धन में सरकारी और निगमित हस्तक्षेप जरूरी है।

भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बाढ़ से आपकी



**Chairman's communiqué to Members of National Insurance Company Limited at the 99<sup>th</sup> Annual General Meeting held on, Monday 25<sup>th</sup> September 2006, at 3, Middleton Street Kolkata 700 071**


I am honoured, as the CMD of this august Company, to welcome all Members to the 99<sup>th</sup> AGM in the Centenary year of your Company. Having taken over the reins on 31<sup>st</sup> October 2005, I look back, in introspection, at the performance of the Company during 2005-06, in the backdrop of the macro economic scene, both national and international.

In India, the year 2005-06 was distinguished as one with a respectable growth at 8.4% in the GDP and marked growth in the agriculture sector. The securities market also showed a stupendous growth with the Sensex recording a high of 11280 as on March 31<sup>st</sup> 2006. Market fluctuations rocked investor confidence during the latter part of Q<sub>2</sub> in 2006-07 but this later stabilized

time high, of income from investment at Rs.1009.75 crore, including profit of Rs.528.03 crore from sale of investments.

The year 2005 could be written up as one for major catastrophes from A to Z, Hurricanes Arlene through to Zeta, not forgetting to mention Katrina and Wilma, which devastated the lives and property of millions of people across the globe, causing a corresponding hardening of insurance rates. It is now thought that these supposedly 'one in a hundred year events' may more prudently be categorized as 'one in twentyfive' year events. Collaterally, in insuring and reinsuring business this series of unprecedented catastrophes evoked a sobering perception of underwriting prudence and

**FINANCIALS 2005-06 & 2004-05**



with the market leveling and showing a conservative if consistent growth.

Your Company, I am happy to say, fully exploited the market on the upswing and our Investment portfolio shows a healthy balance of Rs. 4685.95 crore with an all

should, we feel, invoke governmental & corporate intervention for active risk perception and risk and disaster management.

In India, the floods in Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu, incurred significantly high claims for your



कम्पनी के लिए रु.721.80 करोड़ का उल्लेखनीय अधिक दावा हुआ जिसमें ओएनजीसी की मुम्बई हाई ऑयल रिग में आग से हुए दावे और सतलज नदी पर नाथपा झाकरी पन बिजली परियोजना में बाढ़ से हुई क्षति के दावे शामिल हैं। आपकी कम्पनी ने समझदारीपूर्वक अधिक पुनर्बीमा संरक्षण कराया था और इस अनुमानित कदम से बाढ़ से हुई हानियों में महत्वपूर्ण राशि की भरपाई हो सकी। पुनर्बीमा बाजार श्रृंखलाबद्ध प्राकृतिक आपदाओं और विश्व तथा देश में आतंकवादी हमलों के कारण कड़ाई कर रहे हैं इसलिए चालू वित्त वर्ष में हम ऐसे संतुलित पुनर्बीमा पोर्टफोलियो की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं।

आपकी कम्पनी ने अनुशासित बीमा लेखन में यहाँ तक कि वृद्धि की कीमत पर निरंतर हानि पहुँचानेवाली पालिसियों पर कड़ा रुख अपनाया है। हम वृद्धि के ऐसे रास्तों पर चलने को तैयार हैं जहाँ लाभ की संभावना हो और थोड़ी वृद्धि दर भी मिले। 2005-06 के वित्तीय परिणाम में कड़े बीमालेखन का अनुशासन परिलक्षित हो रहा है जो अभूतपूर्व बड़ी प्राकृतिक हानियों के लगातार प्रभाव के बावजूद है। कर पूर्व शुद्ध हानि रु.59.64 करोड़ तक सीमित रहा और फ्रिज सुविधा कर के लिए रु.55 करोड़ का कर प्रावधान किया गया। हानि के और कारणों में वेतन संशोधन के बाद बकाया भुगतान का बढ़ा हुआ खर्च और पेंशन उपदान कोष आदि देयताओं के लिए बढ़ी राशि रहे।

आपकी कम्पनी द्वारा बैंकों, ऑटो डीलरों और कारपोरेट जगत से जो रणनीतिक गठबंधन का प्रयास किया गया है उनका फायदा हमें रु.750 करोड़ गठबंधनों से प्रीमियम के रूप में हुआ है। एकीकृत वित्तीय सेवा देनेवालों के इस विचार का पूरा लाभ चालू वर्ष में लेने का प्रयास किया जाएगा।

साधारण बीमा बाजार डीटैरिफिंग के माध्यम से पूर्ण रूप से खुले बीमा बाजार के रूप में परिवर्तित होने के लिए लगभग तैयार है। आपकी कम्पनी इस चुनौती के लिए तैयार है और अपनी बीमा लेखन सम्भावना और लाभप्रद पालिसियों के सक्रिय चयन के द्वारा इसे अवसर के रूप में बदलने के लिए कृत संकल्प है। प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों सहित डीटैरिफिंग कक्ष बनाया गया है जो सभी प्रचालन कार्यालयों के अधिकांश कार्मिकों को टैरिफ के बदले उन्हें दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न जोखिमों का बीमालेखन करेंगे।

आपकी कम्पनी ने जिप्सा कम्पनियों में व्यापक आईटी सुरक्षा पालिसी पहले लागू करने के साथ साथ कोलकाता में आर्ट डाटा सेंटर स्थापित किया है। सभी कार्यालयों के डाटा का संग्रह, समेकन, विश्लेषण के लिए साफ्टवेयर जेनिसिस इंटरप्राइज और वेब इंटरप्राइज साफ्टवेयर माड्यूल को लागू करना जिससे वेब आधारित पालिसी जारी करना सम्भव होगा फाइनल स्टेज में है। आपकी कम्पनी ने तीन वर्षों के रॉ पालिसी और दावा स्तर डाटा का विशाल डाटा बेस तैयार किया है जो प्रशुल्क मुक्त दौर में प्रशासनिक निर्णय और दर निर्धारण के लिए विशेष महत्व का होगा।

यहां मेरा मानना है कि हमारे व्यक्ति आधारित पालिसियों को बढ़ाने में सेवा दे रहे एजेंटों की प्रशंसा की जानी चाहिए। मेरा उनसे अनुरोध है कि आनेवाले समय में उन्हें दूनी मेहनत से कार्य करना होगा जिससे आपकी कम्पनी लगातार मांगवाली साधारण बीमा कंपनी बनी रहे और यह कि सभी वर्गों की जरूरत के अनुसार तैयार नई पालिसियों की वास्तविक मांग बनी रहे और बेहतर विकल्प के रूप में इन्हें खरीदा जाए।

आपकी कंपनी ने व्यक्ति आधारित कई नई पालिसियां शुरू की हैं जो जैसा कि पहले कहा गया है कि व्यक्तियों की जरूरत के अनुसार संशोधित की जाए। यह व्यक्तिगत जरूरतों और हमारे बहुमूल्य ग्राहकों के संसाधनों के बारे में हमारी विचारधारा को व्यक्त कर रहा है और हम अपने ग्राहकों को अपने पास रखने के लिए सेवा करने की हमारी इच्छा जाहिर करते हैं।

हमने चालू वर्ष के लिए रु.3800 करोड़ का लक्ष्य तय किया है और अच्छा लाभ पाने की आशा है। आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी कंपनी को कई बड़े व्यवसाय मिले हैं जिनका प्रीमियम रु. 80 से रु. 100 करोड़ के बीच है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कंपनी ने दावों विशेषकर मोटर तृतीय पक्ष को सीमित करने के व्यापक उपाय किये हैं। यह निरन्तर चलनेवाली क्रिया है और हमारा प्रस्ताव है कि विभिन्न मंचों पर दावा निष्पादन दर को प्रधान कार्यालय द्वारा दावा खर्च कम करने के लिए लगातार मानिटर करने पर ध्यान दें जिससे ब्याज का बोझ कम हो सके। आपको यह जानकर खुशी होगी कि नामी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एएए/स्टेबल वित्तीय शक्ति रेटिंग दी है जो पालिसी धारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्चतम वित्तीय शक्ति का सूचक है।

विभिन्न प्रबन्धन स्तरों को उत्साहित और दुरुस्त करने की मानव संसाधन की दीर्घ कालिक नीति के अनुरूप और निपुणता बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी ने एमडीआई गुडगांव जैसे प्रमुख कार्मिक प्रशिक्षण संस्थानों के कस्टमाइज्ड प्रोग्राम में प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया है।

मनी लांडरिंग निषेध अधिनियम, 2002, 1 जुलाई 2006 से प्रभावी हुआ है और सभी वित्तीय संस्थानों के लिए प्रयोज्य है। मनी लांडरिंग या आतंकवाद को वित्तीय सहायता के संभावित प्रयासों को जानने की सांविधिक जिम्मेदारी निभाने के क्रम में प्रत्येक बीमाकर्ता को मनी लांडरिंग निषेध (ए.एम.एल.) प्रोग्राम की जरूरत है जिसमें शामिल है आंतरिक नीतियां, प्रक्रिया तथा नियंत्रण, प्रधान अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, कर्मचारी/एजेंट की भर्ती व प्रशिक्षण, आंतरिक नियंत्रण/लेखा परीक्षा तथा केवाईसी नियम। तदनुसार मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी के मनी लांडरिंग विरोधी कार्यक्रम को कंपनी ने जुलाई 2006 में स्वीकार किया और श्री के बनर्जी, मुख्य प्रबन्धक, प्रधान कार्यालय को प्रधान अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

Company at Rs.721.80 crore, including claim due to fire on ONGC's Mumbai High oil rig and flood damage claims at the hydel power project of Nathpa Jhakri on the river Sutlej. Your Company had proactively purchased more reinsurance cover, which anticipatory gambit paid off with substantial recoveries on account of flood losses which had been reinsured. With the reinsurance market hardening in the wake of serial natural calamities and global and domestic terrorist attacks we do not expect such a balanced reinsurance portfolio in the current fiscal.

Your Company had adopted a stricter underwriting discipline of avoiding, even at the expense of growth, consistently loss making policies. We seek venues for growth where even a conservative growth rate is accompanied by potential for profit. The financial results for 2005-06 reflect this stricter underwriting discipline, together with the effects of consecutive unprecedented catastrophic losses. The net loss before tax has been contained at Rs.59.64 crore with tax provision of Rs.55 crore on account of fringe benefits tax etc. Other contributory factors towards loss are the increased expenses for payment of arrears on account of wage revision & increased amount of liabilities in respect of Pension, Gratuity Funds etc.

Your Company's pioneering efforts in strategic alliances with banks, auto dealers and other corporate entities have paid off in a big way with premium from alliances clocking a respectable Rs.750 crore. This idea of integrated financial services providers would be further exploited to optimum potential in the current fiscal.

The general insurance market is all set for a paradigm shift in that the insurance market is opening out fully, through detariffing, to free market forces of demand and supply. Your Company has readied itself to meet the challenge and is determined to convert this as an opportunity to extend our underwriting potential and actively select profitable policies. A detariffing cell, comprising senior executives at Head Office, has been constituted, who have in turn, imparted training to numerous personnel in all operating offices to write various risks according to the guidelines supplied to them, in lieu of the erstwhile tariffs.

Your Company has established a state of the art Data Centre at Kolkata besides being first in implementing a comprehensive IT Security Policy amongst GIPSA companies. Implementation of 'GENISYS Enterprise', a software for collection, consolidation, analysis of all

Offices data and Web Enterprise software module which enables web based policy issue is in the final stages. Your Company has built up huge databases on raw Policy and Claim level data for three years which would be of crucial importance for rating as well as administrative decision making in the detariffed regime.

At this juncture I feel that it would be appropriate to applaud our agents work force who have been doing a yeoman's service in promoting our personal line products. I exhort them to work twice as hard in the coming years to ensure that your Company is continually preferred as the general insurer and that the new products designed to suit all wallets and needs are indeed sought after and purchased as the better option.

Your Company has launched several new products in personal line policies, which, as mentioned earlier, can be customized to suit individual client needs. This is being done to convey our perception of the individual needs and resources of our valued loyal customers and our desire to serve and thus retain our client base.


We have set a target of Rs.3800 crore for the current fiscal and hope to post a good profit. You would be happy to know that your Company has acquired several major business accounts where the premium earned is in the range of Rs.80 to Rs.100 crore. Your Company has, as you know, taken extensive measures to contain claims especially on account of Motor Third Party. This is an ongoing process and we propose to concentrate on reducing claims costs by continuously monitoring from Head Office the claim disposal rates at the different fora, thereby reducing burden of interest costs. You would be glad to know that the acclaimed rating agency CRISIL have accorded "AAA/STABLE" financial strength rating, which reflects the highest financial strength to meet policyholders' obligations.

In pursuance of the long term HR policy of rejuvenating and reequipping the different management levels, and improving skills, your Company has decided to impart training through customized programmes at premier personnel training establishments like MDI, Gurgaon.

Prevention of Money Laundering Act, 2002, has become effective from 1<sup>st</sup> July 2006, and is applicable to all financial institutions. In order to discharge statutory responsibility to detect possible attempts of

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सांविधिक जरूरतों के तहत श्री के बनर्जी, मुख्य प्रबन्धक, प्रधान कार्यालय को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का पद दिया गया है और लगभग सभी प्रचालन कार्यालयों में कई पदाधिकारी इस रूप में नामित हैं और सदस्य

इस अवसर पर मैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि वे भारत में बीमा जागरूकता के प्रसार और बीमा के विकास में निरंतर शोध कर रहे हैं ।




कंपनियों के साथ अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वयन और अनुपालन के संबंध में समान नीति तैयार करने में लगे हुए हैं ।

मैं कंपनी के निदेशक मंडल के अपने माननीय साथियों को इस अवसर पर अपनी शुभकामना और हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि कंपनी के प्रबन्धन में उनकी परिपक्व सलाह और सहयोग मुझे मिला ।

मैं पूरे देश के हमारे कार्यालयों के सहकर्मियों के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने संगठन के हित में पूरे मन से योगदान दिया । मुझे आशा है कि भविष्य में भी कंपनी को ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए वे वही टीम भावना और समर्पण दिखाएंगे ।

कोलकाता  
25 सितम्बर 2006




मैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभारी हूँ कि वे हमारे नियमित कार्य और भविष्य के बारे में हमें विस्तृत मार्ग निर्देश देते हैं ।

मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके मार्ग निर्देश के लिए धन्यवाद देता हूँ ।


हम अपने ग्राहकों की भावनाओं का आदर करते हैं और इस कठिन समय में हमारे में विश्वास बनाये रखने के लिए उनके आभारी हैं । हमें आशा है कि भविष्य में उनका समर्थन जारी रहेगा ।

धन्यवाद



(वी. रामसामी)  
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

money laundering or financing of terrorism, every insurer needs to have an AML program which should include, Internal Policies, procedures and controls, Appointment of a Principal Compliance Officer, Recruitment & training of Employees/Agents, Internal Control/Audit and KYC norms. Accordingly, Anti Money Laundering Programme of the Company approved by the Board, was adopted by the Company in July 2006 and Shri K. Banerjee, Chief Manager,



Head Office appointed as Principal Compliance Officer.


Under statutory requirements of the Right to Information Act, 2005, Shri K. Banerjee, Chief Manager, at Head Office, has been designated Central Public Information Officer, together with numerous officials of almost all of the operating offices, and together with member companies is engaged in delineating a common policy regarding the implementation of and compliance under the Act.

I would like to take this opportunity to express my deep appreciation and sincere thanks to my esteemed colleagues the Directors on the Board of the Company, for their mature advice and guidance in the management of the affairs of the Company.

Kolkata  
25<sup>th</sup> September 2006

I am grateful to our colleagues at our offices all over the country for their whole-hearted contribution and their spirited campaign for the cause of the organisation. I hope they will show the same team spirit and dedication to lift the Company to greater heights in future.

We are thankful to the Insurance Regulatory and Development Authority, for the initiatives taken in




respect of spreading insurance awareness amongst the people of our country and continuous research undertaken for the development of the insurance industry.

I am grateful to the Ministry of Finance, Government of India for giving us detailed guidelines, in respect of our day-to-day working as well as future planning.

We would like to thank the Comptroller and Auditor General of India and the Statutory Auditors for their proper guidance.

We respect the sentiments of our customers and are grateful to them for reposing confidence in us at the crucial hour. We look forward to their continued support in future.

Thank you.



(V. Ramasaamy)  
Chairman-cum-Managing Director




### सदस्यों को निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन :

निदेशकगण को एतद्वारा अपना 99वां वार्षिक प्रतिवेदन और उसके साथ 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लेखा का लेखा परीक्षित विवरण पेश करते हुए खुशी है :

#### वित्तीय परिणाम

क. सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम

	वर्ष	अग्नि रु.	समुद्री रु.	विविध रु.	कुल रु.
भारत में	<b>2005-06</b>	<b>483.94</b>	<b>173.43</b>	<b>2866.30</b>	<b>3523.67</b>
	2004-05	(537.64)	(251.29)	(3010.98)	(3799.91)
वृद्धि (%)	<b>2005-06</b>	<b>-9.99</b>	<b>-30.98</b>	<b>-4.81</b>	<b>-7.27</b>
	2004-05	(4.24)	( 34.25)	(12.01)	(12.06)
भारत के बाहर	<b>2005-06</b>	<b>5.65</b>	<b>2.36</b>	<b>4.66</b>	<b>12.67</b>
	2004-05	(4.66)	(2.15)	(3.93)	(10.74)
वृद्धि (%)	<b>2005-06</b>	<b>21.24</b>	<b>9.77</b>	<b>18.58</b>	<b>17.97</b>
	2004-05	(23.94)	(26.47)	(15.25)	(21.08)
कुल	<b>2005-06</b>	<b>489.59</b>	<b>175.79</b>	<b>2870.96</b>	<b>3536.34</b>
	2004-05	(542.30)	(253.44)	(3014.91)	(3810.65)
वृद्धि (%)	<b>2005-06</b>	<b>-9.72</b>	<b>-30.64</b>	<b>-4.77</b>	<b>-7.20</b>
	2004-05	(4.38)	(34.18)	(12.01)	(12.08)




### Report of the Board of Directors to the Members

Directors take pleasure in hereby presenting their 99<sup>th</sup> Annual Report and the Audited Statements of Accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March 2006:

#### FINANCIAL RESULTS

##### A. GROSS DIRECT PREMIUM

	Year	Fire Rs.	Marine Rs.	Miscellaneous Rs.	Total Rs.
In India	<b>2005-06</b>	<b>483.94</b>	<b>173.43</b>	<b>2866.30</b>	<b>3523.67</b>
	2004-05	(537.64)	(251.29)	(3010.98)	(3799.91)
Increase (%)	<b>2005-06</b>	<b>-9.99</b>	<b>-30.98</b>	<b>-4.81</b>	<b>-7.27</b>
	2004-05	(4.24)	( 34.25)	(12.01)	(12.06)
Outside India	<b>2005-06</b>	<b>5.65</b>	<b>2.36</b>	<b>4.66</b>	<b>12.67</b>
	2004-05	(4.66)	(2.15)	(3.93)	(10.74)
Increase (%)	<b>2005-06</b>	<b>21.24</b>	<b>9.77</b>	<b>18.58</b>	<b>17.97</b>
	2004-05	(23.94)	(26.47)	(15.25)	(21.08)
Total	<b>2005-06</b>	<b>489.59</b>	<b>175.79</b>	<b>2870.96</b>	<b>3536.34</b>
	2004-05	(542.30)	(253.44)	(3014.91)	(3810.65)
Increase (%)	<b>2005-06</b>	<b>-9.72</b>	<b>-30.64</b>	<b>-4.77</b>	<b>-7.20</b>
	2004-05	(4.38)	(34.18)	(12.01)	(12.08)



ख. बीमालेखन अनुभव

(रु. करोड़ में)

	वर्ष	अग्नि रु.	समुद्री रु.	विविध रु.	कुल रु.
शुद्ध प्रीमियम	2005-06	353.32	103.15	2226.53	2683.00
	2004-05	(361.22)	(123.18)	(2347.77)	(2832.17)
शुद्ध प्रति धारण (%)	2005-06	72.17	58.68	77.55	75.86
	2004-05	(66.61)	(48.60)	(77.87)	(74.32)
शुद्ध उपगत दावे	2005-06	246.58	85.60	2498.15	2830.33
	2004-05	(144.11)	(72.44)	(2046.96)	(2263.51)
	2005-06	69.79	82.99	112.20	105.49
	2004-05	(39.90)	(58.81)	(87.19)	(79.92)
कमीशन	2005-06	13.23	5.01	122.31	140.55
	2004-05	(-20.69)	(-5.15)	(103.34)	(77.50)
	2005-06 (%)	3.74	4.86	5.49	5.24
	2004-05 (%)	(-5.73)	(-4.18)	(4.40)	(2.74)
प्रबंधन खर्च	2005-06	131.45	33.69	717.47	882.61
	2004-05	(131.50)	(45.13)	(682.76)	(859.39)
	2005-06 (%)	37.20	32.66	32.22	32.90
	2004-05 (%)	(36.40)	(36.65)	(29.08)	(30.34)
अन्य आय(-)/व्यय (+)	2005-06	0.27	0.03	-0.75	-0.45
	2004-05	(-0.56)	(0.81)	(-1.09)	(-0.84)
	2005-06 (%)	0.08	0.02	-0.03	-0.02
	2004-05 (%)	(-0.16)	(0.66)	(-0.05)	(-0.03)
असमाप्त जोखिम आरक्षित में वृद्धि	2005-06	-3.95	-15.60	-60.62	-80.17
	2004-05	(8.63)	(10.18)	(149.21)	(168.02)
	2005-06 (%)	-1.12	-15.13	-2.72	-2.99
	2004-05 (%)	(2.39)	(8.26)	(6.36)	(5.93)
निवेशों की बिक्री पर लाभ	2005-06	61.48	30.50	692.71	784.70
	2004-05	(40.46)	(23.48)	(469.06)	(533.00)
सहित निवेश आय (आय लेखा में)	2005-06 (%)	17.40	29.57	31.11	29.25
	2004-05 (%)	(11.20)	(19.06)	(19.98)	(18.82)
सम्बिभाजित आनुपातिक हिस्सा)	2005-06	27.22	24.93	-357.32	-305.17
	2004-05	(138.69)	(23.25)	(-164.35)	(-2.41)
शुद्ध बीमालेखल लाभ (+)/हानि (-)	2005-06 (%)	7.70	24.17	-16.05	-11.37
	2004-05	(38.39)	(18.88)	(-7.00)	(-0.09)

ग. कार्य परिणाम

(रु. करोड़ में)

	2005-06	2004-05
शुद्ध बीमा लेखन लाभ (+) हानि (-)	-305.17	(-2.41)
निवेशों की बिक्री से लाभ सहित व्याज, लाभांश और किराया आय (शेयरधारकों के लेखा में सम्बिभाजित आनुपातिक हिस्सा)	225.05	(152.17)
अन्य आय और व्यय	20.48	(-8.55)
कर पूर्व लाभ (+)/हानि(-)	-59.64	(141.21)
कराधान के लिए प्रावधान	55.00	(2.69)
आस्थगित कर	0	(7.34)
कर पश्चात शुद्ध लाभ (+)/हानि(-)	-114.64	(131.18)
पिछले वर्षों के लिए कराधान का समायोजन/ कर वापसी	8.39	(-0.06)
विनियोजन के लिए उपलब्ध अतिशेष	-106.25	(131.12)
सामान्य आरक्षित में अंतरित	-106.25	(102.62)
प्रस्तावित लाभांश	0	(25.00)
लाभांश संवितरण कर	0	(3.50)

B. UNDERWRITING EXPERIENCE

(Rs. in crore)

	Year	Fire Rs.	Marine Rs.	Miscellaneous Rs.	Total Rs.
Net Premium	2005-06	353.32	103.15	2226.53	2683.00
	2004-05	(361.22)	(123.18)	(2347.77)	(2832.17)
Net Retention(%)	2005-06	72.17	58.68	77.55	75.86
	2004-05	(66.61)	(48.60)	(77.87)	(74.32)
Net Incurred Claim	2005-06	246.58	85.60	2498.15	2830.33
	2004-05	(144.11)	(72.44)	(2046.96)	(2263.51)
	2005-06	69.79	82.99	112.20	105.49
	2004-05	(39.90)	(58.81)	(87.19)	(79.92)
Commission	2005-06	13.23	5.01	122.31	140.55
	2004-05	(-20.69)	(-5.15)	(103.34)	(77.50)
	2005-06 (%)	3.74	4.86	5.49	5.24
	2004-05 (%)	(-5.73)	(-4.18)	(4.40)	(2.74)
Expenses of Management	2005-06	131.45	33.69	717.47	882.61
	2004-05	(131.50)	(45.13)	(682.76)	(859.39)
	2005-06 (%)	37.20	32.66	32.22	32.90
	2004-05 (%)	(36.40)	(36.65)	(29.08)	(30.34)
Other Income (-) Outgo (+)	2005-06	0.27	0.03	-0.75	-0.45
	2004-05	(-0.56)	(0.81)	(-1.09)	(-0.84)
	2005-06 (%)	0.08	0.02	-0.03	-0.02
	2004-05 (%)	(-0.16)	(0.66)	(-0.05)	(-0.03)
Increase in Reserve for Unexpired Risks	2005-06	-3.95	-15.60	-60.62	-80.17
	2004-05	(8.63)	(10.18)	(149.21)	(168.02)
	2005-06 (%)	-1.12	-15.13	-2.72	-2.99
	2004-05 (%)	(2.39)	(8.26)	(6.36)	(5.93)
Investment Income including Profit on Sale of Investments (-)	2005-06	61.48	30.50	692.71	784.70
(Proportionate share apportioned to Revenue Accounts)	2004-05	(40.46)	(23.48)	(469.06)	(533.00)
	2005-06 (%)	17.40	29.57	31.11	29.25
	2004-05 (%)	(11.20)	(19.06)	(19.98)	(18.82)
Net Underwriting Profit (+)/ Loss (-)	2005-06	27.22	24.93	-357.32	-305.17
	2004-05	(138.69)	(23.25)	(-164.35)	(-2.41)
	2005-06 (%)	7.70	24.17	-16.05	-11.37
	2004-05	(38.39)	(18.88)	(-7.00)	(-0.09)

C. WORKING RESULTS

(Rs. in Crore)

	2005-06	2004-05
Net Underwriting Profit (+) / Loss (-)	-305.17	(-2.41)
Interest, Dividend & Rent Income Including profit on sale of Investments (Proportionate share apportioned to Shareholders' Account)	225.05	(152.17)
Other Income & Outgo	20.48	(-8.55)
Profit (+)/Loss (-) before Tax	-59.64	(141.21)
Provision for Taxation	55.00	(2.69)
Deferred Tax	0	(7.34)
Net Profit (+)/Loss (-) after Tax	-114.64	(131.18)
Adjustment for Taxation for earlier Years/Tax Refunds	8.39	(-0.06)
Balance available for appropriation	-106.25	(131.12)
Transfer to General Reserve	-106.25	(102.62)
Proposed Dividend	0	(25.00)
Dividend Distribution Tax	0	(3.50)






1906 - 2006  
100  
YEARS OF SERVICE TO THE NATION

## DISTRIBUTION ACROSS PORTFOLIOS


(Rs. in Crore)

	MARINE	FIRE	MISC
EXP OF MNGT	33.69	131.45	717.47
INC CLAIMS	85.6	246.58	2498.15
INVST INC	30.5	61.48	692.71
PREMIUM	175.79	489.59	2870.96



## INVESTMENT INCOME & PROFIT ON SALE

(Rs. in Crore)



	'01-'02	'02-'03	'03-'04	'04-'05	'05-'06
INVESTMENT INCOME	439.77	485.88	662.69	685.17	1009.75
PROFIT ON SALE	19.70	99.54	213.57	245.09	528.03

#### घ. पूँजी तथा निधियाँ

##### शेयरधारकों का कोष :

	2005-06	2004-05
प्रदत्त पूँजी	100.00	100.00
सामान्य आरक्षित	1008.58	1114.83

##### पालिसीधारकों का कोष :

असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित	1346.57	1426.74
वर्ष के अन्त में बकाया दावों के लिए प्राक्कलित देयता	3380.75	2809.08
	4727.32	4235.82
	5835.90	5450.65

विगत वर्ष में रुपये 435.87 करोड़ की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान रु.385.25 करोड़ कुल निधियों की अभिवृद्धि रही (शेयरधारकों के कोष में रु.106.25 करोड़ की कमी तथा पालिसीधारकों के कोष में रु. 491.50 करोड़ की वृद्धि )

कम्पनी की कुल परिसम्पत्तियों में रु 3535.49 करोड़ की वृद्धि हुई तथा यह विगत वर्ष के रु. 10270.95 करोड़ के बदले रु.13806.44 करोड़ हुई ।

#### शेयरधारकों एवं पालिसीधारकों का कोष



#### कार्य परिणाम :

निरन्तर हानि देनेवाली पालिसियों से बचने की 2005-06 में कम्पनी द्वारा अपनाई गई विपणन कार्यनीति के परिणामस्वरूप

भारत में 2004-05 के रु.3799.91 करोड़ की तुलना में रु.3523.67 करोड़ का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम लिखा गया।

#### D. CAPITAL & FUNDS

##### SHAREHOLDERS' FUND :

	2005-06	2004-05
Paid-up Capital	100.00	100.00
General Reserve	1008.58	1114.83


##### POLICYHOLDERS' FUND :

Reserve for Unexpired Risks	1346.57	1426.74
Estimated Liability for Outstanding claims at the end of the year	3380.75	2809.08
	4727.32	4235.82
	5835.90	5450.65

The accretion in total funds in 2005-06 has been Rs.385.25 crore (the decrease in Shareholders' Fund being Rs.106.25 crore and increase in Policyholders' Fund Rs.491.50 crore) as against Rs.435.87 crore in the previous year.

The total assets of the Company increased by Rs.3535.49 crore and amounted to Rs.13806.44 crore as against Rs.10270.95 crore during previous year.

#### SHAREHOLDERS' & POLICYHOLDERS' FUNDS



#### WORKING RESULTS :

In pursuance of the Company's policy, adopted in 2005-06, to eschew consistently loss prone policies, the marketing strategy was reengineered with the resulting

Gross Direct Premium of Rs.3523.67 crore in India, written by the Company as against Rs.3799.91 crore in 2004-05.





नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
National Insurance Company Limited

a trusted shelter for 100 years

### भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम व दावा (उपगत किन्तु सूचित नहीं के अलावा)


(रु. करोड़ में)

विभाग	भारत में सकल प्रत्यक्ष							
	प्रीमियम आय			उपगत दावा				
	2005-06	2004-05	वृद्धि	2005-06		2004-05		वृद्धि IN ICR
	Rs.	Rs.	%	Rs.	%	Rs.	%	%
अग्नि	483.94	537.64	-9.98	721.80	149.15	278.82	51.86	187.60
समुद्री माल	127.61	150.76	-15.35	124.46	97.53	82.40	54.66	78.43
समुद्री पोत	45.82	100.53	-54.42	239.34	522.35	5.78	5.75	8984.34
मोटर नि. क्ष.	1321.93	1366.54	-3.26	845.94	63.99	714.88	52.31	22.33
मोटर तृ. प.	524.48	641.88	-18.29	1471.85	280.63	1207.53	188.12	49.17
इंजीनियरिंग	109.27	107.82	1.34	47.90	43.84	-106.51	-98.78	144.38
उड्डयन	84.55	40.90	106.72	79.14	93.60	10.89	26.63	251.48
पीए	83.63	106.56	-21.51	134.52	160.85	104.53	98.09	63.98
स्वास्थ्य	414.01	380.86	8.70	528.34	127.62	487.69	128.05	-0.34
डब्ल्यू सी	22.57	20.03	12.68	6.96	30.84	6.83	34.10	-9.56
जन देयता	14.33	15.01	-4.53	2.27	15.84	1.34	8.93	77.37
आरएनटीबी	92.03	94.51	-2.62	49.42	53.70	44.04	46.60	15.24
अन्य विविध	199.50	236.87	-15.77	155.65	78.02	127.10	53.66	45.40
कुल	3523.67	3799.91	-7.26	4407.59	125.08	2965.32	78.04	60.28

प्रीमियम व दावा का वितरण


प्रीमियम का वितरण

(रु. करोड़ में)



दावा का वितरण

(रु. करोड़ में)



### Gross Direct Premium & Claims in India (Without IBNR) :


(Rs.in crore)

CLASS	GROSS DIRECT IN INDIA							
	PREMIUM INCOME			INCURRED CLAIMS				
	2005-06	2004-05	GROWTH	2005-06		2004-05		GROWTH IN ICR
	Rs.	Rs.	%	Rs.	%	Rs.	%	%
FIRE	483.94	537.64	-9.98	721.80	149.15	278.82	51.86	187.60
MARINE CARGO	127.61	150.76	-15.35	124.46	97.53	82.40	54.66	78.43
MARINE HULL	45.82	100.53	-54.42	239.34	522.35	5.78	5.75	8984.34
MOTOR OD	1321.93	1366.54	-3.26	845.94	63.99	714.88	52.31	22.33
MOTOR TP	524.48	641.88	-18.29	1471.85	280.63	1207.53	188.12	49.17
ENGINEERING	109.27	107.82	1.34	47.90	43.84	-106.51	-98.78	144.38
AVIATION	84.55	40.90	106.72	79.14	93.60	10.89	26.63	251.48
P. A.	83.63	106.56	-21.51	134.52	160.85	104.53	98.09	63.98
HEALTH	414.01	380.86	8.70	528.34	127.62	487.69	128.05	-0.34
W. C.	22.57	20.03	12.68	6.96	30.84	6.83	34.10	-9.56
PUBLIC LIABILITY	14.33	15.01	-4.53	2.27	15.84	1.34	8.93	77.37
RNTB	92.03	94.51	-2.62	49.42	53.70	44.04	46.60	15.24
OTHER MISC.	199.50	236.87	-15.77	155.65	78.02	127.10	53.66	45.40
TOTAL	3523.67	3799.91	-7.26	4407.59	125.08	2965.32	78.04	60.28

### Classwise GDPI (India) Breakup

#### PREMIUM DISTRIBUTION

(Rs. in Crore)



#### CLAIMS DISTRIBUTION

(Rs. in Crore)

